



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1205) पटना, मंगलवार, 8 जुलाई 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

8 जुलाई 2025

सं० 3/एच०-01/2020-12451/सा०प्र०—राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-2748 दिनांक-17.06.2025 द्वारा पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु दिनांक-09.07.2025 को मतदान की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-131 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु मतदान के दिन (दिनांक-09.07.2025) ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के रिक्त पदों वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ मतदान होना है, के लिए मतदान की तिथि-09.07.2025 को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त मतदान की तिथि 09.07.2025 (बुधवार) को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश मात्र उन पंचायत एवं ग्राम कचहरी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रहेगा, जहाँ मतदान निर्धारित है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1205-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>